



फ्री उपन्यास



烏越敦司 atushi torigoe

फ्री उपन्यास

प्रलय का दिन

核爆弾 परमाणु बम

二〇三X年。 दो सौ और तीन एक्स साल। この日も地球の空は青かった。 खाली पृथ्वी इस दिन रंग नीला था। が वहाँ

「大変です首相。 アメリカの核爆弾が飛んで来ました！」 ”यह बहुत ही प्रधानमंत्री है। अमेरिकी परमाणु बम उड़ान आया!”

「何だって！ それで防げたのだろうな。」 ”यहाँ तक कि क्या मैं यह द्वारा रोका गया आश्चर्य है।”

「はい、 何とか太平洋上で爆発しましたが . . . 。」 ”हाँ, लेकिन मैं प्रशांत महासागर में विस्फोट करने में कामयाब रहे . . . ”

 これは大変な騒ぎとなった。 यह एक बहुत ही हंगामा हो गया है।

 アメリカは本年度からロボットを使って軍の指揮にあたらせていたのだ。 अमेरिका मैं इस वित्तीय वर्ष से एक रोबोट का उपयोग करके सेना की कमान को हिट करने के लिए किया था।

 右の事件につきアメリカは、 もちろん公式に謝罪した。 घटना की सही प्रति अमेरिकी, आधिकारिक तौर पर माफी कोर्स की थी।

 だが次の日、 中国とパキスタンが核兵器を飛ばし合った。 लेकिन अगले दिन, चीन और पाकिस्तान एक-दूसरे के परमाणु हथियारों को छोड़ दिया है।

 先制したのは中国だったのだ。 यह चीन की अग्रकय था। これについて世界中から非難があがったが、 中国軍首脳は、 दुनिया भर से इस आलोचना के लिए ऊपर चला गया है, लेकिन चीनी सैन्य नेताओं,

 「われわれは軍の指揮を優秀なアメリカのロボットに任せている。 文句があるならアメリカへ言ってくれ。」 ”मैं उसे यूनाइटेड स्टेट्स अगर वहाँ बताने के लिए। शिकायत है कि सैन्य कमांडरों प्रतिभाशाली अमेरिकी रोबोट के लिए छोड़ दिया जाता है।”

 と声明した。 इसके साथ एक वक्तव्य था।

 世界中でロボットが活躍するようになって久しい。 लंबे समय से यह इतना है कि रोबोट पूरी दुनिया में सक्रिय है मैं किया गया है।

 アメリカは、 もとよりわが日本でもレストランなどは大抵ロボットだし、 今年からプロ野球選手も一人口ロボットが現れたのだ。 संयुक्त राज्य अमेरिका, के रूप में अच्छी तरह से यह आमतौर पर इस तरह के रेस्तरां हमारे जापान में रोबोट के रूप में, है, यह भी एक पेशेवर बेसबॉल खिलाड़ी है एक व्यक्ति रोबोट इस साल से उभरा है।

 その結果は、 . . . ロボットはオールスターに出場したのだった。 परिणाम रोबोट ऑल स्टार में हिस्सा लिया है के लिए किया गया है . . . । अमेरिकाの国防省だってロボットが大分いるといわれている。 यहाँ तक कि रक्षा के संयुक्त राज्य अमेरिका विभाग में कहा गया है कि रोबोट वर्तमान ओड़टा है।

 もちろん先の戦争は国連問題となったのだが、 国連の職員もみんなロボットなのだ。 बेशक युद्ध के आगे यह संयुक्त राष्ट्र की एक समस्या है, यह भी सबको रोबोट संयुक्त राष्ट्र के कर्मचारियों बन गया।

 ロボットは給料もいらぬし、 故障すると他のロボットが修理することになっている。 रोबोट किसी भी वेतन की जरूरत नहीं है, और अन्य रोबोट की विफलता की मरम्मत करने के लिए माना जाता है। 開発はアメリカでされたが、 車と同様わが国でも近年はロボットの開発は目ざましい。 हालांकि विकास के लिए हाल के वर्षों में संयुक्त राज्य अमेरिका, मैं किया गया है भी कार के साथ ही

「これに、めこは口本とスライムにね。」 अब, 19 जापान का आर 1998 स्थित का बाद है।
大統領は、世界中の映像を見ながら話す。 राष्ट्रपति, दुनिया भर में वीडियो देखने के दौरान बोलते हैं।
「それ時間の問題ですよ。スイスは、ともかく、日本なんてどうにでもなるんですから。」 ”यह यह भी समय की बात है।
स्विजरलैंड किसी भी मामले में है, Nante क्योंकि मैं किसी भी समय अगर जापान बनाया है।”
と国防長官が発言した。 रक्षा सचिव को कहा गया है।
「それより、」 ”यह से”
と副大統領は発言する。 और उपराष्ट्रपति बात करने के लिए।
「日本のやつらも、大統領が、まさか宇宙人だなんて思ってもないでしょうねえ。」 ” ’के जापान उन्हें भी, उने शायद नहीं है
यहां तक कि सोचा Nante विदेशी अध्यक्ष कभी नहीं।”
「ああ、彼らの頭には輸出しかないからなあ。」 ”ओह, है क्योंकि वहाँ केवल उनके सिर को निर्यात करता है।”
と大統領は答えて、笑った。 राष्ट्रपति, जवाब हँसे।
「しかし、わたしを受け入れた君達は賢明だったよ。」 ”लेकिन, तुम लोगों को यह बुद्धिमान था कि मुझे स्वीकार कर लिया।”
「そうですとも。われわれは、もう日本には勝てないと思っていたのですから。」 ”यहां तक कि हम कर रहे हैं। हम कर रहे
हैं, क्योंकि मैंने सोचा कि मैं जापान में दूसरे को नहीं जीत सकते हैं।”
悔しそうに、副大統領は述べた。 chagrined के उपाध्यक्ष ने कहा।
「まあ、日本が、いくらがんばろうと我々の星の文明には、とても及ばんよ。現に・・・。」 ”ठीक है, जापान सभ्यता,
बहुत कठिन है की कोशिश कर बहुत Oyoban'yo के हमारे स्टार में है। वास्तव में”
と、話して大統領はニヤリと笑った。 और, राष्ट्रपति मुस्करा हँसे बात कर।
「あの中国の軍事ロボットも、ここホワイトハウスで操作していたのだし、核の雲を消す爆弾も我々の星のものさ。」
”चीनी सैन्य रोबोट, मैं यहाँ व्हाइट हाउस के काम कर रहा है, उन बम बंद हमारे स्टार के बादलों के नाभिक चालू करने के लिए है।”
「大統領、世界はやはり我々アメリカのものですね。」 ”राष्ट्रपति, मैं दुनिया में क्या हम संयुक्त राज्य अमेरिका में अब भी है।”
と発言してCIA長官が立ち上がった。 बात हो रही है और सीआईए के निदेशक बड़ी है।
「そうだと。乾杯しよう。」 ”मैं इतना भी। टोस्ट करने के लिए कोशिश कर रहा हूँ।”
と述べてと大統領はグラスを取った。 राष्ट्रपति का वर्णन करने के लिए गिलास ले लिया।
「日本に核戦争を仕掛ける日に。」 ”दिन में जापान पर परमाणु युद्ध शुरू करने के लिए।”
「乾杯！」 ”वाह!”
アメリカ合衆国首脳一同はグラスを合わせた。 संयुक्त राज्य अमेरिका के शिखर सम्मेलन हर कोई कांच का एक संयोजन है।

無口な日本の首脳 मितभाषी जापान शिखर सम्मेलन

時の首相は大変な無口で知られた人だった。 समय पर प्रधानमंत्री एक है जो एक बहुत ही अल्पभाषी के लिए जाना जाता था। 長い文章は喋れないらしい。 लंबे वाक्य बोलने नहीं लगता है।

「首相、大変です。今度は本当の核が・・・。」 ”प्रधानमंत्री, बहुत ही वास्तविक नाभिक है। अब”
首相官邸にいた、わたしに、防衛大臣が電話してきた。 प्रधानमंत्री कार्यालय में था, मेरे लिए, रक्षा मंत्री को फोन करने के लिए आया था।
「すぐ避難を！」 ”तुरंत खाली!”

その後の電話の声を聞く前に、わたしは地下の核シェルターへ逃げた。 इससे पहले कि आप बाद में फोन की आवाज सुन, मैं
तहरखाने में परमाणु आश्रय के लिए भाग गया। 十分後、日本の首脳は皆、核シェルターに集まった。 पर्याप्त बाद जापान के नेताओं के
सभी परमाणु शरण में इकट्ठा कर रहे हैं।

「首相、どうします？」 ”प्रधानमंत्री, तुम क्या करते हो?”
日本の首脳に一同は、異口同音で聞いた。 जापान के नेताओं हर कोई सर्वसम्मत बारे में सुना है।
「そうだな。われわれだけが生き延びればいけないではないか。とても勝ち目はないよ。」 ”हाँ। हम केवल मैं Ikinobire नहीं
करते। यह बहुत है जीत नहीं है।”
と、わたしは答えた。 एक बार, मैंने जवाब दिया।
「そんな・・・。」 ”यही कारण है कि”
首相一同は、わたしは上の空を聞いていた。 वेगलें का कोई एक ओर में ने मैं अस्पष्टित विचार में था था, है
।なぜなら、わたしは、アメリカ製のロボットだから・・・。 इसका कारण यह है, जब से मैं रोबोट अमेरिकी बनाया हूँ

फ्री उपन्यास

<http://p.booklog.jp/book/106551>

著者：鳥越敦司 atushi torigoe

著者プロフィール：<http://p.booklog.jp/users/dontanine/profile>

感想はこちらのコメントへ

<http://p.booklog.jp/book/106551>

ブックログ本棚へ入れる

<http://booklog.jp/item/3/106551>

電子書籍プラットフォーム：ブックログのパバー (<http://p.booklog.jp/>)

運営会社：株式会社ブックログ